

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय - हिंदी

कक्षा - 5

ASSIGNMENT - अप्रैल(2021-22)

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आईं, शायद नहाकर आई थीं, उसी झागवाले जल में। पतले-दुबले स्नेह-सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन-से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यः टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर, पेट छुए। आँचल की गाँठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई। दिन-रात चारपाई के पास बैठी रहतीं, कभी पंखा झलतीं, कभी जलते हुए हाथ-पैर कपड़े से सहलातीं, सर पर दालचीनी का लेप करतीं और बीसों बार छू-छूकर ज्वर का अनुमान करतीं। हाँडी में पानी आया कि नहीं? उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं? खिचड़ी में मूँग की दाल एकदम मिल तो गई है? कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ-पूछकर घरवालों को परेशान कर देतीं।

- (क) दादी बुखार (ज्वर) को उतारने के लिए क्या - क्या उपाय करती थी ?
- (ख) दादी घरवाले को कैसे प्रश्न पूछकर परेशान कर देती थी ?
- (ग) उपर्युक्त गद्यांश में से कोई चार संज्ञा शब्द छाँटकर लिखिए ।
- (घ) 'जल' शब्द के कोई दो पर्यायवाची शब्द लिखिए ।

प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के वर्ण-विच्छेद कीजिए -

नीला , विद्या , ज्ञानी , बच्चा

**प्रश्न 3 निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए -**

उर्दू , संस्कृत , नेपाली , जर्मन , बोडो

**प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -**

- (क) केशव भाई गाँव के लोगों को क्या बनाना चाहते थे ?
- (ख) भारत देश के लोगों की विशेषताएँ लिखिए ।
- (ग) 'हाथ मलते रह जाना' मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ ।
- (घ) लाल पटेल कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था ?
- (ङ) बच्चे कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं ?
- (च) लाइब्रेरी में कौन-कौन आते थे ?

**प्रश्न 5 'समय का महत्त्व' विषय पर ८०-१०० शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।**